



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 चैत्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 249) पटना, बुधवार, 30 मार्च 2016

मुख्य अभियंता-2 पटना
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश
4 मार्च 2016

सं0 ग्रा0का0/अनुकम्पा-8/15-846 अनु0—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का ज्ञापांक 124/सी0 दिनांक 04.06.02 पत्रांक-1117 दिनांक 07.05.05, पत्रांक-1337 दिनांक 21.03.02 एवं पत्रांक-2360 दिनांक 24.12.08 के आलोक में अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज के पत्रांक-801 दिनांक-08.10.15 द्वारा प्राप्त श्री संजीव कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 इन्द्र कुमार सिन्हा, भूतपूर्व पत्राचार लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, किशनगंज-1 का आवेदन/अभिलेख (उनका आवेदन पत्र, वंशावली प्रमाण पत्र, अनियोजित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, चारित्र प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों एवं शपथ पत्रों) के जॉच के आलोक में जिलापदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति किशनगंज के ज्ञापांक 209 जि0 स्थापना दिनांक 31.03.15 एवं पत्रांक 502 जि0 स्थापना दिनांक 07.09.15 के द्वारा श्री संजीव कुमार सिन्हा को अनुकम्पा के आधार पर वर्ग-3 के पद पर नियुक्त करने के लिए अनुशंसित है, के आलोक में श्री संजीव कुमार सिन्हा, पिता-स्व0 इन्द्र कुमार सिन्हा, ग्राम-काली प्रसाद टोला मधुबनी, थाना-कै0 हाट, जिला-पूर्णियां को अनुकम्पा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक (पत्राचार लिपिक) के पद पर वेतनमान-पी0वी0-I (5200-20200) ग्रेड-पे 1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते सहित नियुक्ति किया जाता है एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज में पत्राचार लिपिक के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री संजीव कुमार सिन्हा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज में वर्ग तीन के रिक्त पद के विरुद्ध देंगे। पत्र निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर हर हालत में अपना योगदान देना होगा, अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

2. स्व0 इन्द्र कुमार सिन्हा के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण का दायित्व श्री संजीव कुमार सिन्हा पर होगी। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूर्ण तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जाएगा, जिसके विरुद्ध नियमतः समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी उपलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है।

3. इनकी नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। संबंधित वरीयता के लिए उनकी मान्यता नहीं दी जायेगी।

4. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र हर हालत में देना होगा।

5. अगर श्री संजीव कुमार सिन्हा की नियुक्ति आरक्षित कोटा के रोस्टर विन्दू पर हुई हो तो उसे अग्रणीत कर दिया जायेगा।
6. नियुक्ति पद पर योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण-पत्र स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, वास्तविक जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र एवं आश्रितों से संबंधित शपथ पत्रों मूल रूप से संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसकी जाँच एवं समीक्षा संबंधित पदाधिकारी द्वारा कर लेने के पश्चात् योगदान स्वीकार किया जायेगा। जिसकी सूचना इस कार्यालय को दें।
7. श्री श्री संजीव कुमार सिन्हा की शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना के उप सचिव (निगरानी) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पत्रांक नि0-5598 दिनांक 22.12.15 एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (उच्च माध्यमिक) बुद्ध मार्ग, पटना के पत्रांक BSEB (SS)/PAT/6046/D-16 दिनांक 21.01.2016 द्वारा परीक्षाफल की सत्यता की जांच करा लिया गया है।
8. योगदान करने हेतु किसी प्रकार की यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
9. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने एवं नियुक्ति पद पर योगदान करने हेतु किसी प्रकार का धोखाधड़ी या गलत सूचना के आधार पर नियुक्ति कर लेने पर भी उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा अन्य समुचित कार्रवाई भी की जायेगी।
10. उन्हें सरकार/विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्य में निश्चित रूप से भाग लेना होगा तथा उसके लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
11. उन्हें छः माह के अन्दर टंकक एवं कम्प्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
12. शादी-ब्याह के अवसर पर किसी प्रकार का दहेज न लेना और न देना के सम्बन्ध में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
13. उप-सचिव, वित्त विभाग, बिहार पटना का पत्रांक-1964 दिनांक 31.08.05 के अनुसार दिनांक 01.09.05 एवं उसके बाद नियुक्त कर्मियों को अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
मुख्य अभियंता-2
ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 249-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>